



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

216  
12

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

255] 225 नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 1977/आषाढ़ 10, 1899

255] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 1977/ASADHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st July, 1977

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 5-Customs (GSR 183), dated the 31st January, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the First Schedule to this notification and imported against an Advance Licence issued under the Imports (Control) Order, 1955, being materials required to be imported for the purpose of manufacture of goods, or replenishment of the materials used in the manufacture of goods, or both, for execution of one or more export orders, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975 and the whole of the auxiliary duty of customs

leviable thereon under the said Finance Act, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the materials imported are covered by a Duty Exemption Entitlement Certificate (hereinafter referred to as the said Certificate) granted by the Committee in the form specified in the Second Schedule to this notification, in respect of value, quantity, description, quality or technical characteristics, as specified in Part C of the said Certificate;
- (b) the importer at the time of clearance of the imported materials makes—
  - (i) a claim in writing to the Collector of Customs for such exemption and executes a bond before such authority as may be approved by the Central Government for complying with the conditions specified in this notification;
  - (ii) a declaration before the Assistant Collector of Customs binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with;
- (c) the goods corresponding to the resultant products in respect of value, quantity, description, quality or technical characteristics, as specified in the said Certificate are exported subsequent to the grant of the said Certificate, within the time specified therein or such extended period as may be granted by the Committee;
- (d) in the manufacture of the goods exported in terms of condition (c)—
  - (i) subject to clause (i) or clause (ii) the exempt materials are used;
  - (ii) where the exempt materials, or any portion thereof not being components or parts or both, are not used in such manufacture, materials corresponding to such exempt materials or any portion thereof in respect of quantity, description, quality and technical characteristics are used;
  - (iii) where the exempt materials or any portion thereof, being components or parts or both, are not used in such manufacture, materials corresponding to such exempt materials or any portion thereof are used, if specifically authorised by the Committee in this behalf;
- (e) the exempt materials shall be used for the purpose specified in this notification and in such factories as are specified in the said Certificate;
- (f) the exempt materials or any portion thereof shall not be sold or otherwise transferred to any other person, or utilised or permitted to be utilised or disposed of in any other manner, without the previous permission of the Committee.

*Explanation.*—In this notification,—

- (i) "Committee" means the Inter-Departmental Committee, as constituted by the Central Government under the Office Memorandum of the Government of India in the Ministry of Commerce No 1(3)/66-EAC, dated the 28th June, 1967, for the time being in force, or as re-constituted by the Central Government from time to time;
- (ii) "exempt materials" means the materials imported and specified in Part C of the said Certificate and eligible for exemption from duty under this notification;
- (iii) "materials" means goods which are raw-materials (whether consumable or not) and includes semis, components, parts and intermediate products used in the manufacture of goods and their packings;
- (iv) "resultant products" means the goods specified in Part E of the said Certificate.

## THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Description of goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1973
(1)	(2)	(3)
1.	Ivory unmanufactured	05.01/15
2.	Mutton Tallow	15.01/06
3.	Asbestos Fibre	25.01/32
4.	Graphite	25.01/32
5.	Electrolytic manganese dioxide	28.01/58
6.	Tungston and antimony ores and concentrates	26.01
7.	Zinc ore/concentrates	26.01
8.	Transformer oil	27.10
9.	Acetylene Black	28.01/58
10.	Mercury, platinum and palladium	28.01/58
11.	Aniline Oil	29.01/45
12.	Potassium Chloride	31.02/05
13.	Phosphorous	28.01/58
14.	Titanium dioxide	28.01/58
15.	Arsenic trioxide	28.01/58
16.	Iodine crude	28.01/58
17.	Soda Ash	28.01/58
18.	Sodium Cyanide	28.01/58
19.	Sodium tripoly phosphate	28.01/58
20.	Ethylene Glycol	29.01/45
21.	DMT (Dimethyl Terephthalate)	29.01/45
22.	Caprolactum	29.01/45
23.	Benzene, Toluene, xylene and Nephthlene	29.01/45
24.	Alkyl benzene/dodecyl benzene	38.01/19, 27.10
25.	Methanol	29.01/45
26.	Phthalic anhydride	29.01/45
27.	Phenol	27.07, 29.01/45
28.	Urea (Chemically pure)	31.02/05
29.	Melamine	29.01/45
30.	Benzaldehyde	29.01/45
31.	Benzyl cyanide	29.01/45
32.	Tartaric acid	29.01/45
33.	Citric acid	29.01/45
34.	Beta Naphthol	29.01/45
35.	Dimethyl aniline	29.01/45
36.	Vinyl acetate	29.01/45
37.	Antibiotics, Analgin and Vitamins	29.01/45
38.	Sulpha drugs—	
	(a) Phthalyl Sulphathiozole	29.01/45
	(b) Sulpha methoxy pyridiazine	29.01/45
39.	Chloroquin salts	29.01/45
40.	Alkaloids of Ergot	29.01/45

(1)	(2)	(3)
41.	Dexamethazone . . . . .	29°01/45
42.	Triamcinolone . . . . .	29°01/45
43.	Norethidrone . . . . .	29°01/45
44.	Methyl dopa . . . . .	29°01/45
45.	Alfa naphthylamine . . . . .	29°01/45
46.	3·3 Dichlorobenzidine dihydrochloride . . . . .	29°01/45
47.	Iron Cement . . . . .	25°01/32, 38°01/19, 32°04/12
48.	Special purpose paints and enamels . . . . .	32°04/12
49.	Electroplating salts and brighteners . . . . .	38°01/19
50.	Epoxy resin . . . . .	39°01/06
51.	CAB (cellulose acetate butyrate moulding powder) . . . . .	39°01/06
52.	Acrylonitrilo butadiene styrene (ABS) moulding powder . . . . .	39°01/06
53.	Polyethylene moulding powder . . . . .	39°01/06
54.	Polypropylene moulding powder . . . . .	39°01/06
55.	Acrylic Moulding powder . . . . .	39°01/06
56.	Methyl methacrylate monomer . . . . .	39°01/06
57.	Synthetic rubber . . . . .	40°01/04
58.	Corkwood . . . . .	45°01/04
59.	Rayon grade wood pulp . . . . .	47°01
60.	Insulating paper, condenser tissue paper and kraft paper and board . . . . .	8°01/21
61.	Man-made fibre and yarn, both continuous and discontinuous—	
	(a) Nylon tyre cord yarn . . . . .	51°01/03
	(b) Others . . . . .	51°01/03, 56°01/04, 56°05/06
62.	Raw wool . . . . .	53°01/05
63.	Fibreglass . . . . .	0°20
64.	Industrial diamonds . . . . .	71°02
65.	Ferro alloys . . . . .	73°02
66.	Iron or steel powder . . . . .	73°03/05
67.	Bars and rods of iron or steel, including alloy steel and high carbon steel . . . . .	73°10, 73°15
68.	Angles, shapes and sections of iron or steel including alloy steel and high carbon steel . . . . .	73°11, 73°15
69.	Strips, sheets and plates of iron or steel whether cold rolled or hot rolled, grain oriented or non grain oriented, including high carbon steel or alloy steel and stainless steel in cut lengths or in coils . . . . .	73°12, 73°13, 73°15
70.	Tubes and pipes including fittings therefor of iron or steel or alloy steel whether seamless or welded . . . . .	73°17/19, 73°20
71.	Copper unwrought, ingots, blooms, slabs, cakes, tiles, blocks, bricks, billets, cathode blister, bars (electrolytic wire bars) copper scrap and brass scrap . . . . .	74°01/02, 74°03, 74°09/19
72.	Copper pipes and tubes including brass tubes . . . . .	74°07/08
73.	Nickel pellets, cakes, slabs, anodes, shots, blocks granules, and briquettes . . . . .	75°01, 75°02, 75°04/06
74.	Lead ingots and pigs, scrap . . . . .	78°01
75.	Zinc, unwrought including cakes, bars, blocks, ingots, hard or soft slabs and plates . . . . .	79°01

(1)	(2)	(3)
76	Tin block . . . . .	80.01
77.	Tungsten Molybdenum, tantalum and other base metals, wrought and unwrought and articles thereof . . . . .	81.01/04
78.	Parts and accessories of Boilers, machinery and mechanical appliances viz.—	
	(a) Parts of diesel engines . . . . .	84.06
	(b) Parts of diesel generating sets . . . . .	84.08, 85.08
	(c) Parts of machine tools . . . . .	84.45/48
	(d) N.O.S. . . . .	All Headings under Chapter 84
79	Ball and roller bearings . . . . .	84.62
80.	P.V.C. separator for batteries . . . . .	85.04
81.	Components of wireless reception and transmission apparatus . . . . .	85.15
82.	Electrode carbon rods for dry cell batteries . . . . .	85.18/27
83.	Crystal displays, metal oxide semi-conductor chips . . . . .	85.18/27
84.	Silicon chips and wafers . . . . .	85.18/27
85.	Parts of railways and tramway locomotives and rolling stock . . . . .	86.09
86.	Railway and tramway track and traffic signalling equipment . . . . .	86.10 and 73.16
87.	Parts of tractors . . . . .	87.04/06
88.	Parts of motor vehicles all types including motor cycles, scooter and mopeds . . . . .	87.04/06, 87.13/14
89.	Parts of ships, boats and floating structures . . . . .	89.01/03.
90.	Parts of optical photographic, cinematographic, measuring, checking, precision medical and surgical instruments and apparatus . . . . .	All Headings under Chapter 90.
91.	Parts of clocks, timepieces and watches . . . . .	91.01/11
92.	Drugs, drug intermediates and pharmaceuticals and raw materials thereof . . . . .	29.01/45, All headings under Chapter 30.
93.	Dyes, dye intermediates, pigments and pigment dyestuffs and raw materials thereof . . . . .	29.01/45, 32.04/12
94.	Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and others . . . . .	39.01/06

## THE SECOND SCHEDULE

## DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE

This consists of . . . . . Pages)  
 Serial No. . . . . Date of issue . . . . .  
 This is granted in favour of . . . . . (Importer's name and full address)  
 . . . . .  
 . . . . .

Materials imported against Advance Licence No. . . . . dated the . . . . .  
 issued by . . . . . to the  
 above Importer and covered by the list of materials specified under Part C of this Certificate would  
 be eligible for exemption from duty subject to the conditions specified in the notification of the  
 Government of India in the Department of Revenue and Banking No. . . . .  
 Customs, dated the . . . . . (hereafter in this Schedule referred to as the  
 said notification).

The Importer shall make the exports in terms of condition (c) of the said notification with  
 . . . . . of the date of issue of this Certificate or with  
 such extended period as may be granted by the Committee.

A Bond in terms of condition (b) of the said notification for Rs. .... shall be executed with ..... before the clearance of the goods from Customs.

After completion of exports, this Certificate shall be produced with endorsements as required by Parts H and I therein for discharge of the Bond before ..... who after discharging the Bond, shall return this Certificate to the issuing authority.

Signature  
(Issuing Authority)  
Date :

#### OFFICE SEAL

Bond(s) in terms of condition (b) of the said notification executed on ..... for Rs. .... (Rupees ..... ) and registered under ..... with this office.

Signature  
Address :  
Date :

#### OFFICE SEAL

#### PART A

Names and addresses of factories where the resultant products for exports are manufactured.

#### PART B

Names and addresses of the factories where the ancillaries to the resultant products for exports are manufactured.

#### PART C

##### List of Materials

S. No.	S. No. in the First Schedule to the said Notification and description	Quality	Technical Characteristics	Quantity	C.I.F. Value	S. No. of the resultant products in Part B
--------	---	---------	---------------------------	----------	--------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# PART D

## *Particulars of Imports (of Materials)*

S. No.	S. No. of the materials in Part C	Bill of Entry No. and date and name of the Custom House of Import.	Description	Quantity and net weight	Value	Duty leviable but for exemption			
						Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Item No. in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, for levy of additional duty	Rate of duty (i) Basic (ii) Additional (iii) Auxiliary	Amount of duty	Signature of the Customs officer with designation and seal.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

# PART E

## *Resultant Products*

S. No.	Description	Quality	Technical Characteristics	Quantity	Value	S. No. of the materials in Part C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## PART F

*Particulars of Exports*

S. No.	S. No. of the resultant products in Part E	Name of the House of shipment	Custom	Shipping Bill No. and date	Name of the vessel and date of outward entry of the vessel	Quantity	Net weight of the export product	Description as per the Shipping bill	FOB value	Signature of the Customs Officer with designation and seal and remarks if any
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

## PART G

*Duties paid on materials in respect of which the conditions of the said notifications are not complied with.*

S. No	S. No. in Part D under which the import of the materials has been entered	Description, Quantity and Value of materials on which duty is paid	Rate of duty leviable. (i) Basic. (ii) Additional. (iii) Auxiliary.	Amount of duty	Particulars of duty paying documents	Signature of the Customs Officer with designation and seal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



## PART H

## CERTIFICATE

I, ..... (Name) Power of Attorney Holder of.....  
 ..... (Importers) having their factory premises at  
 ..... in whose favour the Duty  
 Exemption Entitlement Certificate Serial No. .... dated.....  
 has been granted, certify that—

(a) the goods exported as specified in Serial No.(s)..... of part F have  
 been manufactured in the factory premises mentioned in Part A/Part B;

(b) the exempt materials as specified in Serial No.(s) ..... of Part D have  
 been used in the manufacture of the goods exported as specified in Serial No.(s) ..... of  
 Part F [vide clause (i) of condition (d) of the said Notification];

(c) Materials corresponding to the exempt materials as specified in Serial No.(s).....  
 of Part D have been used in the manufacture of the goods exported as specified in Serial No(s).  
 .... of Part F [vide clause (ii) or clause (iii) of condition (d) of the said Notification];

(d) in respect of imported materials as specified in Serial No (s) ..... of Part D,  
 duties have been paid as specified in Serial No.(s)..... of Part G.

## OFFICE STAMP

Date :

Witness :

Signature

Designation

Address

## PART I

## DISCHARGE OF BOND

We request that Bond No.. ..... may be discharged.

Signature of the Importer.

There is no objection to the cancellation of the Bond, so far as the Customs Department is  
 concerned.

Signature of the Customs Officer  
at the Port of Registration

Designation and Seal

Bond No./ ..... registered under Serial No.....  
 Dated ..... for Rs..... (Rupees.....)  
 ..... discharged on  
 ..... after having satisfied myself that all the con-  
 ditions of the above Bond have been fulfilled.

## OFFICE SEAL

Date

Signature :

Designation :

[No. 138/F. No. 602/9/76-DBK]

C. D. RANGACHARI, D

## राजस्व और बीमा विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 427(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 5—सीमा शुल्क (सा० का० नि० 183), तारीख 31 जनवरी, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जानें पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इस अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों को, जो नियति (नियंत्रण) आदेश 1955 के अन्तर्गत जारी की गई अनुज्ञप्ति पर आयात किए गए हों, इस आधार पर कि वे एक या अधिक नियति आदेश के क्रियाव्ययन के लिए माल के विनिर्माण या माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की प्रतिपूर्ति के लिए या दोनों के लिए अपेक्षित सामग्री है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से और उक्त वित्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(क) आयातित सामग्री मूल्य, मात्रा, विवरण, क्वालिटी तथा तकनीकी विशेषताओं, जो कि शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रमाणपत्र कहा गया है) के भाग ग में विनिर्दिष्ट है, के संबंध में, इस अधिसूचना की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में समिति द्वारा मंजूर किए गए उक्त प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आती है ;

(ख) निकासी के समय, ऐसी आयातित सामग्री का आयातकर्ता—

(i) सीमा शुल्क कलक्टर के समक्ष ऐसी छूट का दावा लिखित में करता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्राधिकारी के समक्ष इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए बंधपत्र विध्यादित करता है ;

(ii) सहायक सीमा शुल्क कलक्टर के समक्ष ऐसी घोषणा करता है कि वह मांग किए जाने पर उस आयातित सामग्री पर, जिसके संबंध में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि छूट न होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए बचनबद्ध है ;

(ग) मूल्य, मात्रा, विवरण, क्वालिटी और तकनीकी विशेषताओं के सम्बन्ध में परिणामी उत्पादों के समतुल्य माल का, उक्त प्रमाणपत्र की मंजूरी के

पश्चात्, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उतनी बढ़ाई गई अधि के भीतर, जो समिति द्वारा मंजूर की जाए, निर्यात कर दिया जाएगा ;

(घ) शर्त (ग) के अनुसार निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में—

(i) खंड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त सामग्री का प्रयोग किया जाएगा,

(ii) जहां ऐसे विनिर्माण में छूट प्राप्त सामग्री, या उसका कोई भाग जो संघटक, या पुर्जे (पार्ट) या दोनों नहीं हैं, प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं वहां ऐसी छूट प्राप्त सामग्री के समतुल्य सामग्री अथवा उसका कोई भाग, मात्रा, विवरण, क्वालिटी और तकनीकी विशेषताओं के संबंध में, प्रयोग में लाई जाती है ;

(iii) जहां ऐसे विनिर्माण में छूट प्राप्त सामग्री या उसका कोई भाग, जो कि संघटक या पुर्जे (पार्ट) अथवा दोनों के रूप में हैं, प्रयोग में नहीं लायी जाती है, वहां ऐसी छूट प्राप्त सामग्री के समतुल्य सामग्री या उसका कोई भाग, यदि इस निमित्त समिति द्वारा विनिर्दिष्टता प्राधिकृत किया जाए तो, प्रयोग में लाया जाता है ;

(ङ) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त सामग्री का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कारखानों में किया जाएगा जो उक्त प्रमाणपत्र, में विनिर्दिष्ट है ;

(च) छूट प्राप्त सामग्री या उसका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेचा जाएगा और न अन्यथा अंतरित किया जाएगा, अथवा उपयोग में लाया जाएगा अथवा उपयोग में लाए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा अथवा किसी अन्य रीति से, समिति की पूर्ण अनुज्ञा के बिना, निष्पादित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण—**इस अधिसूचना में,—

(i) “समिति” से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तत्समय प्रवृत्त कार्यालय ज्ञापन सं० 1(3)/66-इएसी, तारीख 26 जून, 1967 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्गठित, अन्तर्विभागीय समिति अभिप्रेत है ;

(ii) “छूट प्राप्त सामग्री” से आयातित और उक्त प्रमाणपत्र के भाग ग में विनिर्दिष्ट तथा इस सूचना के अधीन शुल्क से छूट प्राप्त सामग्री अभिप्रेत है ;

(iii) “सामग्री” से वह माल अभिप्रेत है जो कच्ची सामग्री (उपभोग्य हो अथवा नहीं) है तथा इसमें से भी, संघटक, पुर्जे (पार्ट) और मध्यवर्ती उत्पाद, जो माल के विनिर्माण और उसकी पैकिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं, आती है ;

(iv) “परिणामी उत्पाद” से उक्त प्रमाणपत्र के भाग ङ में विनिर्दिष्ट माल अभिप्रेत है ।

## प्रथम अनुसूची

क्रम संख्यांक	भाल का वर्णन	सीमा-शुल्क टैरिफ अधि- नियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष संख्यांक
(1)	(2)	(3)
1	हाथी दांत, अधिनिर्मित . . . .	05.01/15
2.	टैलो योष्ट . . . .	15.01/06
3.	एस्बेस्टस तंतु . . . .	25.01/32
4.	ग्रेपनष्ट . . . .	25.01/32
5.	विद्युत अपघटनी मैगनीज डाइआक्साइड . .	28.01/58
6.	टंगस्टेन और एन्टिगनी अयस्क और सांद्र . .	26.01
7.	जस्ता अयस्कसांद्र . . . .	26.01
8.	ट्रासफार्मर तेल . . . .	27.10
9.	ऐसीटिलीन ब्लैक . . . .	28.01/58
10.	मर्करी, प्लैटिनम, पैलेडियम . . . .	28.01/58
11.	एनिलिन तेल . . . .	29.01/45
12.	पोटेशियम क्लोराइड . . . .	31.02/05
13.	फास्फोरस . . . .	28.01/58
14.	टाइटेनियम डाइआक्साइड . . . .	28.01/58
15.	आर्सेनिक ट्राइआक्साइड . . . .	28.01/58
16.	आयोडीन अपरिष्कृत . . . .	28.01/58
17.	घोने का सोडा . . . .	28.01/58
18.	सोडियम साइनाइड   . . . .	28.01/58
19.	सोडियम ट्रिपोली फास्फेट . . . .	28.01/58
20.	एथिलीन ग्लाइकाल . . . .	29.01/45
21.	डाइएथिल टोरोफथलेड . . . .	29.02/45
22.	केथ्रोलैक्टम . . . .	29.01/45
23.	बन्जीन, टॉल्यून, एक्सीलीन और नेफ्थलीन . .	29.01/45
24.	ऐल्किल, बैनजीन/डोडेसिल बैनजीन . . . .	28.01/19, 27, 10
25.	मेथोनाल . . . .	29.01/45
26.	थैलिक एनहाइड्राइड . . . .	29.01/45

(1)	(2)	(3)
27.	फीनाल . . . . .	27.07, 29.01/45
28.	यूरिया (रसायनत. शुद्ध) . . . . .	31.02/05
29.	मैल ऐमीन . . . . .	29.01/45
30.	बैन्जलिङ्गहाइड . . . . .	29.01/45
31.	बैन्जलि साइनाइड . . . . .	29.01/45
32.	टार्टरिक एसिड . . . . .	29.01/45
33.	साइट्रिक एसिड . . . . .	29.01/45
34.	बीटा नेफथाल . . . . .	29.01/45
35.	डाइमैथिल एम्लीन . . . . .	29.01/45
36.	वाइनिल एसिटेट . . . . .	29.01/45
37.	प्रतिजीवी, एन्जिन और विटामिन . . . . .	29.01/45
38.	सल्फा औषधियाँ— (क) फाथालइल सल्फाथियोजाल . . . . . (ख) सल्फा मेथाक्सी वाइरिडियाक्साइन . . . . .	29.01/45 29.01/45
39.	क्लोरोक्वीन लवण . . . . .	29.01/45
40.	अमर्ल के क्षार . . . . .	29.01/45
41.	डेक्सामैथाजोन . . . . .	29.01/45
42.	ट्राइमसिनोलोन . . . . .	29.01/45
43.	नोरेथिर ड्रोन . . . . .	29.01/45
44.	मैथिल डोषा . . . . .	29.01/45
45.	अल्फा नैपथीलेमाइन . . . . .	29.01/45
46.	3.3 डाइक्लोरोबैन्जाइन डिहाइड्रोक्लोसाइड . . . . .	29.01/45
47.	आयरन सीमेट . . . . .	25.01/32, 38.01/19
48.	विशेष प्रयोजन वाले पेंट और इनामिल . . . . .	32.04/12
49.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग लवण और चमकने वाले पदार्थ . . . . .	32.04/12
50.	एपोक्सी रेजिन . . . . .	38.01/19
51.	सी०ए०बी० (सेलुलोज एसिटेट बुटाइरेट मोलिडग पाउडर)	
52.	एक्रिल नाइट्रो बुटेडीन स्टाइटेन (ए०बी०एस०) मोलिडग पाउडर	
53.	पोलिथिलीन मोलिडग पाउडर . . . . .	39.01/06
54.	पोलीप्रोपिलिन मोलिडग पाउडर	

(1)	(2)	(3)
55. एकिलिक मोल्डिंग पाउडर]		
56. मैथिल मैथाक्रिलेट मोनोगर]		
57. संशिलष्ट रबड़ . . . . .	40.01/04	
58. कार्कबुड . . . . .	45.01/04	
59. रेयन ग्रेड लकड़ी लुगवी . . . . .	47.01	
60. इंस्युलेटिंग कागज, कंडेसर टिगु कागज तथा क्राफ्ट कागज और बोर्ड . . . . .	48.01/21	
61. कृत्रिम तन्तु (अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों)--- <sup>1</sup>		
(क) नाइलोन टायरकोर्ड सूत . . . . .	51.01/03, 56.01/04, 56.05/06	
(ख) अन्य . . . . .	51.01/05	
62. अपरिष्कृत ऊन . . . . .	53.01/05	
63. तन्तु कांच (फाइबर ग्लास) . . . . .	70.20,	
64. औद्योगिक हीरे . . . . .	71.02	
65. लौह मिश्र धातुएं . . . . .	73.02	
66. लोहा अथवा इस्पात चूर्ण] . . . . .	73.02/05	
67. लोहे या इस्पात की, जिनके अन्तर्गत मिश्रधातु वाला इस्पात और हाई कार्बन इस्पात भी है, शलाकाएं और छड़ें	73.10, 73.15	
68. लोहे या इस्पात के, जिसके अन्तर्गत मिश्रधातु वाला इस्पात और हाई कार्बन इस्पात भी है, कोण, आकार और सक्शन	73.11, 73.15	
69. लोहे और इस्पात की स्ट्रिप्स, चादरे और प्लेटें चाहे उन्हें ठंडा ही लपेटा गया हो या गर्म करके, दानेदार अभिन्यस्त या गैर दानेदार अभिन्यस्त इसमें उच्च कार्बन वाला इस्पात या मिश्रधातु इस्पात भी है और जैक रहित इस्पात जो लम्बाई में कटा हो या . . . . .	73.12, 73.13 73.15	
70. लोहे या इस्पात या मिश्र इस्पात की चाह सीलन रहित हो या जुड़ा हुआ, ट्यूबें और पाइपें इसमें अन्वायुक्तिया भी है	73 17/19, 73.20	
71. तांबा अपिटवां, सिल्लियां, ब्लूमस, पट्टियां, केक, टाइलें, पिंड, ईंटें, बिलेट्स, कैथोड फोले, छड़ें (विद्युत संचारी तार की छड़ें) तांबे की खुरचन और पीतल की खुरचन	74 01/02	
72. तांबे के पाइप और ट्यूबें जिसमें पीतल की ट्यूबें भी है	74.07/08	
73. निकिल की गुटिकाएं, केक, पट्टिया, एमोड्स, शाट्स, पिंड, छड़ें और रोडें	75.01/75.02, 75.04/06	

(1)	(2)	(3)
74.	लेड की सिल्लिया और बिग, बुरखन । . . . .	78.01
75.	जस्ता अपिटवां इसमें केक, छड़े, पिंड, सिल्लियां, कठोर या नरम सिल्लियां और प्लेटें . . . . .	79.01
76.	टिन के पिण्ड . . . . .	80.01
77.	टंगस्टन, मोलीब्डेनम टैन्टेलम और अन्य आधारी धातुएं, पिटवां और अपिटवां और उनकी वस्तुएं	81.01/04
78.	भट्टियों के भाग और उपसाधक यंत्र और यांत्रिक साधित्र जैसे— (क) डीजल इंजनों के पुर्जों . . . . . (ख) डीजल इंजीनियरी सेटों के पुर्जों . . . . . (ग) मशीन उपकरणों के पुर्जों । . . . . (घ) एन०ओ० एस० . . . . .	84.06 84.08, 85.08 84.45/48 अध्याय 84 के अन्तर्गत सभी शीर्ष
79.	बाल और रोलर बियरिंग . . . . .	84.62
80.	बैट्रियों के लिए पी०वी०सी० पृथक्कारक . . . . .	85.04
81.	बेतार संवादग्रहण और संप्रेषण साधियों के संघटक . . . . .	85.15
82.	सूखे सेल की बैट्रियों के लिये विद्युत संचारी कार्बन छड़े . . . . .	85.18/27
83.	क्रिस्टल डिस्प्लेज, सेटल आक्साइड सेमी कंडक्टर विप्ल ] . . . . .	85.18/27
84.	सिलिकान चिप्ट और पटलिका . . . . .	85.18/27
85.	रेलों और ट्रामों के लोकोमोटिव पुर्जों और रोलिंग स्टॉक . . . . .	86.09
86.	रेलो और ट्रामों की पटरिया और यात्री सिग्नल उपस्कर . . . . .	86.10 और 73.16
87.	ट्रैक्टरों के पुर्जों . . . . .	87.04/06
88.	सभी तरह के मोटरयानों के पुर्जों जिनमें मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड्स भी हैं . . . . .	87.04 06, 87.13/14
89.	पोतों, बोटों और प्रवहमाल ढांचों के पुर्जों . . . . .	89.01/03
90.	फोटोग्राफीय, सिनेमाटोग्राफीय, मापकीय, जांच करने वाले, प्रोसीडन, व्यक्तिगतिकीय आप्टिकल और उनके पुर्जों और शल्य संबंधी उपस्कर और साधित्र . . . . .	अध्याय 90 के अन्तर्गत सभी शीर्ष
91.	दीवार घड़ी, टाइम पीस और हाथ घड़ियों के पुर्जों . . . . .	91.01/11
92.	औषधियां (ड्रग), औषधिया—मध्यवर्ती और सैषजीय तथा उनकी कच्ची सामग्री . . . . .	29.01/45 अध्याय 30 के अन्तर्गत सभी शीर्ष

(1)	(2)	(3)
93. रंजक, रंजक मध्यवर्ती, वर्णक और वर्णक रंजक द्रव्य तथा उनकी कच्ची सामग्री	32.04/121 29.01/45	}
94. कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक सामग्री सेल्यूलोज एथर और इथर ।	39.01/06	

### द्वितीय अनुसूची

#### शुल्क-छूट हकदारी प्रमाण-पत्र

(इसमें . . . . . पृष्ठ हैं)

क्रम संख्या . . . . . जारी करने की तारीख . . . . .

(आयातकर्ता का नाम और पता) के पक्ष में जारी किया गया ।

उपर्युक्त आयातकर्ता को, . . . . . द्वारा जारी की गई अग्रिम अनुशक्ति संख्यांक . . . . . तारीख . . . . . पर आयातित और इस प्रमाणपत्र के भाग ग के अधीन विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची में सम्मिलित सामग्री, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. . . . . तारीख . . . . . (जिसे इसमें उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन रहते हुए शुल्क से छूट की पात्र होगी। छूट प्राप्त सामग्री इस प्रमाणपत्र के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट आयातकर्ता के कारखाने/ कारखानों में, इस प्रमाण-पत्र के भाग 'ख' के अधीन विनिर्दिष्ट तत्सम परिणामी उत्पादों, सिवाय उस परिणामी उत्पाद की आनुषंगिक वस्तुओं के इस प्रमाण-पत्र के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट कारखाने/कारखानों में विनिर्मित की जाये, के विनिर्माण में उपयोग में लाई जायेगी।

आयातकर्ता उक्त अधिसूचना की शर्त (ग) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र के जारी किये जाने की तारीख के . . . . . के भीतर या ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो समिति द्वारा मंजूर की जाए, निर्यात करेगा।

माल की सीमा-शुल्क से निकासी के पूर्व, उक्त अधिसूचना की शर्त (ख) के अनुसार . . . . . के समक्ष . . . . . रुपये का एक बन्धपत्र निष्पादित किया जाना चाहिये।

निर्यात पूरा हो जाने पर, यह प्रमाण-पत्र, उसके भाग ज और झ में अपेक्षित के अनुसार पृष्ठांकन सहित, बन्धपत्र के उन्मोचन के लिए . . . . . प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा जो इस बन्धपत्र के उन्मोचन के पश्चात् इस प्रमाणपत्र के जारी करने वाले प्राधिकारी को इसे वापिस लौटा देगा।

हस्ताक्षर

(जारी करने वाला प्राधिकारी)

तारीख:

कार्यालय मुद्रा



उक्त अधिसूचना की शर्त (ख) के अनुसार . . . . . ६० के बन्धपत्र  
जो . . . . . को निष्पादित किया गया था किंए मये थे और इस कार्यालय मे  
. . . . . के अन्तर्गत रजिष्ट्रीकृत किा गया था किंए गए थे ।

हस्ताक्षर

पता

कार्यालय मुद्रा

तारीख

## भाग क

उन कारखानों के नाम और पते जहां परिणामी उत्पाद किए जाने हैं ।

## भाग ख

उन कारखानों के नाम और पते जहां परिणामी उत्पाद की आनुषंगिक वस्तुएं निर्यात  
के लिए जानी हैं ।

भाग ण  
सामग्री की सूची

क्रम सं०	उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० और विवरण	क्वालिटी	तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	लागत, बीमा, ऋाड़ा मूल्य	भाग ड में परिणामी उत्पाद की क्रम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## भाग घ

## (सामग्री के) आयातों की विशिष्टियां

क्रम सं	भाग ग मे सामग्री की क्रम सं०	आयात के सीमा- शुल्क हाउस का नाम और बी ई सं० और तारीख	विवरण	मात्रा और शुद्ध भार	मूल्य	भारतीय टैरिफ अधि- नियम की प्रथम अनु- सूची में शीर्ष सं० और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनु- सूची की मद सं०, अतिरिक्त शुल्क के उद्- ग्रहण के लिए	छूट न दिए जाने पर उद्ग्रहणीय शुल्क ----- शुल्क की दर शुल्क की (i) आधारी रकम (ii) अतिरिक्त (iii) सहायक	सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, उपनाम और मुद्रा सहित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भाग ड  
परिष्कामी उत्पाद

क्रम सं०	वर्णन	क्वालिटी	तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	मूल्य	भाग ग में सामग्री की क्रम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग च  
निर्यात की विशिष्टियाँ

क्रम सं०	भाग ड में परिणामी पोत लदान के उत्पाद की क्रम सं०	सीमा-शुल्क हाउस का नाम	पोत लदान बिल संख्या और तारीख	जलयान का नाम और उसके बाहर की ओर प्रवेश की तारीख	मात्रा	निर्यात उत्पाद का शुद्ध भार	पोत लदान बिल के अनुसार वर्णन	पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ० ओ० बी०) मूल्य	सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रासहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

## भाग छ

जिन सामग्रियों के सबध मे उक्त अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है उन पर सदत्त शुल्क ।

क्रम सं०	भाग छ मे क्रम सं० जिसके अन्तर्गत सामग्री का आयात दर्ज किया गया है ।	जिस सामग्री पर शुल्क संदाय किया गया है उसका वर्णन, मात्रा और मूल्य	उद्ग्रहणीय शुल्क की दर — (i) आधारी (ii) अतिरिक्त (iii) सहायक	शुल्क की रकम	शुल्क के सदाय सम्बन्धी दस्तावेजों की विशिष्टियां	सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा सहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## भाग ज

## प्रमाण-पत्र

मैं . . . . . (नाम) जिसे . . . . . (आयातकर्तागण), जिनका कारखाना परिसर . . . . . में स्थित है, जिनके पक्ष में यह शुल्क छूट प्रमाणपत्र-संख्यांक . . . . . तारीख . . . . . जारी किया गया है, की ओर से मुक्तयार-नामा प्राप्त , प्रमाणित करता हूँ कि—

(क) भाग च के क्रम सं० . . . . . में विनिर्दिष्ट निर्यात किया गया माल भाग क भाग ख में उल्लिखित कारखाना परिसर में विनिर्मित हुआ है।

(ख) भाग च के क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त सामग्री भाग च के क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाई गई है [देखिए उक्त अधिसूचना की शर्त (घ) का खण्ड (i)] ;

(ग) भाग घ के क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त सामग्री के समतुल्य सामग्री भाग च के . . . . . क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाई गई है [देखिए उक्त अधिसूचना की शर्त (घ) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii)] ,

(घ) भाग घ के . . . . . क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट आयातित सामग्री के संबंध में भाग (छ) के क्रम सं० . . . . . पर विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का संदाय कर लिया गया है।

कार्यालय मुद्रा  
तारीख  
साध्य

हस्ताक्षर  
पद नाम  
पता

## भाग झ

हम निवेदन करते हैं कि बंधपत्र सं० . . . . . उन्मोचित कर दिया जाये।

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

जहां तक सीमा शुल्क विभाग का संबंध है बंधपत्र के उन्मोचित किए जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

रजिस्ट्रीकरण के पक्ष पर स्थित सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा।

क्रम सं०.....तारीख.....  
 पर रजिस्ट्रीकृत.....ह० (.....शब्दों में)  
 के बंधपत्र सं०.....को, मेरा यह  
 समाधान हो जाने के पश्चात् कि उक्त बंधपत्र की सभी शर्तें पूर्ण कर दी गई हैं, तारीख ..  
 .....को उन्मोचित कर दिया गया है।

मुद्रा:

हस्ताक्षर

तारीख:

पदनाम

[स० 138 फा० सं 602 9 76-डी० बी० के०]

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
 मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977